

## राजभाषा विभाग की अक्तूबर, 2018 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 31.10.2018 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया गया जिसमें सचिव (राजभाषा) द्वारा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 31.10.2018 को कार्यालय परिसर में 'राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ' दिलाई गई।
- (ii) राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018 मनाया गया तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) द्वारा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 29.10.2018 को कार्यालय परिसर में 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाई गई।
- (iii) देश के विभिन्न नगरों में 71 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (iv) राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में 08 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए।
- (v) विभाग में अक्तूबर, 2018 माह में 76 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (vi) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 01/10/2018 से से 12/10/2018 तक हिंदी प्राध्यापकों की सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए आज्ञापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 35 प्राध्यापकों ने भाग लिया।
- (vii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अक्तूबर, 2018 माह में 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 101 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।
- (viii) अक्तूबर, 2018 में कुल 1514 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई।
- (ix) 145 तदर्थ वरिष्ठ अनुवादकों की तदर्थ अवधि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार बढ़ायी गयी एवं संबंधित मंत्रालयों / विभागों को सूचित किया गया।
- (x) 157 तदर्थ सहायक निदेशकों की तदर्थ अवधि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार बढ़ायी गयी एवं संबंधित मंत्रालयों / विभागों को सूचित किया गया।
- (xi) तदर्थ सहायक निदेशकों की तदर्थ अवधि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार बढ़ायी गयी एवं 14.03.2018 को जारी रिवर्सन आदेश वापस लिया गया।

\*\*\*\*\*